

# GOVERNMENT NAVEEN GIRLS COLLEGE SURAJPUR, C.G.

## DEPARTMENT OF PHYSICS CONTINUOUS INTERNAL ASSESSMENT TEST -I SEC – BASIC ELECTRICAL SKILLS

B.Sc. – II SEMESTER

TIME: 1:30 HOURS

MAX MARKS: 10

NOTE: सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है  
It is compulsory to solve all the questions

Q. (1) निम्नलिखित में से लम्बाई का मात्रक नहीं है

1

Which of the following is not a unit of length

- (i) मीटर      (ii) सेटीमीटर      (iii) किलोग्राम      (iv) किलोमीटर

- (i) meter      (ii) centimetre      (iii) kilogram      (iv) kilometer

Q. (2) तापमान के मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है

1

Which instrument is used to measure temperature

- (i) तराजू      (ii) अमीटर      (iii) वोल्टमीटर      (iv) थर्मामीटर

- (i) Balance      (ii) Ammeter      (iii) Voltmeter      (iv) Thermometer

Q. (3) विद्युत शक्ति का मात्रक है

1

The unit of electric power is

- (i) मीटर      (ii) वाट      (iii) एम्पियर      (iv) हर्ट्ज

- (i) meter      (ii) Watt      (iii) Ampere      (iv) Hertz

Q. (4) ओम के नियम का कथन है (गणितीय रूप )

1


Ohm's law is stated (mathematically) –

- (i)  $R=IV$       (ii)  $V=IR$       (iii)  $I=VR$       (iv)  $I/V=R$

Q. (5) किरचॉफ के नियमनुसार धारा- I का मान होगा -

1

According to Kirchhoff's law, the value of current-I will be –




- (i) 5      (ii) 4      (iii) 3      (iv) 2

Q. (6) परिपथ में बहने वाली धारा का मान होगा -

1

The value of current flowing in the circuit will be –






Q. (7) यह क्या है --  
1

## What is this –



- |              |                |              |              |
|--------------|----------------|--------------|--------------|
| (i) प्रतिरोध | (ii) संधारित्र | (iii) कुंडली | (iv) बैटरी   |
| (i) Resistor | (ii) Capacitor | (iii) Coil   | (iv) Battery |

Q. (8) मल्टीमीटर से मापा जाता है

### **Measured with a multimeter –**



- (i) विद्युत् धारा      (ii) प्रतिरोध      (iii) विभवांतर      (iv) दिए गए सभी

(i) Electric current    (ii) Resistance    (iii) Voltage difference    (iv) All given

Q. (9) यह किस विद्युत घटक का प्रतीक है  
1




**What electrical component does it symbolize**

- |              |                |              |             |
|--------------|----------------|--------------|-------------|
| (i) प्रतिरोध | (ii) संधारित्र | (iii) कुँडली | (iv) बैटरी  |
| (i) Resistor | (ii) Capacitor | (iii) Coil   | (iv) Batter |

Q. (10) निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R का मान क्या होगा  
1

**What will be the value of equivalent resistance in the following circuit**



- (i)  $232 \Omega$       (ii)  $320 \Omega$       (iii)  $152 \Omega$       (iv)  $480 \Omega$

-----0-----